

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 23, 1981/माघ 3, 1902
No. 23] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 1981/MAGHA 3, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(निर्यात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 11-ई टी सी (पी एन)/81

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 1981

विषय : ताजी/जमी हुई फलों का निर्यात

भित्तिल सं० 1/1/81-ई०आई०.—उपर्युक्त विषय पर निर्यात (नियंत्रण) संशोधन आदेश सं०
(ई०सी०)ओ०, 1977/ए० एम० (194) दिनांक 23 जनवरी, 1981 की धोर ध्यान आकृष्ट
किया जाता है।

2. निर्यात नीति अप्रैल 1980-मार्च 1981 के पृष्ठ 10 पर नीति विवरण में क्रम सं० 7(2)3 के सामने दर्शाई गई वर्तमान प्रविष्टि को निम्न प्रकार संशोधन करके इस प्रकार पढ़ा जाए :—

“पामफ्रेट से भिन्न जमी हुई मछली”

3. निर्यात नीति अप्रैल 1980-मार्च 1981 के नीति विवरण के पृष्ठ 10 पर क्रम सं० 7(2)7 के बाव कालम 2 में निम्नलिखित उप-प्रविष्टि जोड़ी जाएगी :—

“7(ii)(8), साजी/जमी हुई प्रान्स” ।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 11-ETC(PN)/81

New Delhi, the 23rd January, 1981

Sub : Export of Fresh/Frozen Prawns.

No. 1/1/81-EL—Attention is invited to the Exports (Control) Amendment Order No. E(C) O, 1977/AM(194) dated the 23rd January, 1981, on the above subject.

2. The existing entry appearing against S. No. 7(ii)3 in the Policy Statement of Export Policy April 1980—March 1981 on page 10 shall be amended to read as under:—

“Frozen Fish other than Pomfret”

3. The following sub-entry shall be added in Column 2 after Sl. No. 7(ii)7 on page 10 of the Policy Statement of Export Policy April 1980—March 1981 :—

“7(ii)(8) Fresh/Frozen Prawns”.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of
Import and Exports